



## असाधारण

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1980/श्रावण 2, 1902

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1980/SRAVANA 2, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1980

**अधिसूचनाएं**

सां. कां. नि० 446(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम 1980 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वगं संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1955 की धनसूची में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात:—

“उत्तर प्रदेश”

राज्य सरकार के अधीन पद  
सरकार के मुख्य सचिव  
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और भूमि सुधार  
सदस्य, राजस्व बोर्ड

252

1

1

2

कृषि उत्पादन आयुवत

आयुक्त और सचिव (योजना)

सदस्य प्रशासनिक और अध्यक्ष लोक सेवा आधिकारण

सदस्व (न्यायिक) राजस्व बोर्ड

सभापति और सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण

भौर अध्यक्ष सतर्कता आयोग

प्रमण्डल आयुक्त

प्रायवस्त चकवन्दी

सरकार के सचिव

मुख्य मंत्री के मा

मुख्य मंत्री के मांचव

अयुक्त विक्री कर

निदेशक, उद्योग

निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान

आयुक्त और परियोजना प्रशासक क्षेत्र विकास

सरकार के विशेष सचिव

अपर रजिस्ट्रार सहाकारी समितियां

राज्यपाल के सचिव

सचिव, राजमन्थ बोर्ड

सरकार के संयुक्त/उप सचिव

अपर/संयुक्त निवेशक, राष्ट्रीय बचत तथा सरकार के संयुक्त/  
उपमण्डल

अयुक्त उत्पाद और अयुक्त नशाबन्दी

निदेशक योजना अनुसंधान और कार्यकारी खण्ड और  
निदेशक मूल्यांकन और प्रशिक्षण खण्ड तथा सरकार के  
विशेष/संयुक्त/उप सचिव

अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग	5
निदेशक अनुसूचित जाति और समाज कल्याण	1
नियंत्रक, बाट, माप और सरकार के संयुक्त/उप सचिव	1
अमायुक्त	1
अपर/संयुक्त भ्रम प्रायुक्त	1
रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	1
शस्त्र आयुक्त	1
अपर/संयुक्त विजय कर आयुक्त	1
अपर आयुक्त	4
निदेशक पंचायत	1
अध्यक्ष और सचिव प्रशासनिक अधिकरण (II)	1
निदेशक सूचना और सरकार के विशेष/संयुक्त/उप सचिव	1
निदेशक प्रशिक्षण और रोजगार	1
निदेशक पर्यटन	1
सचिव, लोक सेवा आयोग	1
उप आयुक्त/मजिस्ट्रेट और कलक्टर	56
रूढ़ आयुक्त	1
महा निरीक्षक रजिस्ट्रीकरण तथा मुख्य निरीक्षक	1
स्टाफ तथा अपर सचिव राजस्व बोर्ड	1
उप भूमि सुधार आयुक्त	1
अपर/उप आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव	1
निदेशक, शहरी भूमि हवबन्दी	1
निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव	1
निदेशक, स्थानीय संस्थाएँ	1
अपर/संयुक्त निदेशक चक्रबन्दी	1
परिवहन आयुक्त	1
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक	5
संयुक्त/उप-विकास आयुक्त/अपर/संयुक्त/उप-परियोजना प्रशा- सक-क्षेत्र-विकास/परियोजना निदेशक सह-मुख्य विकास अधिकारी	20
निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जन जाति	1
	252
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 से 40 प्रतिशत के हिसाब से	101
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवर्णन द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 33-1/3 प्रतिशत के हिसाब से	117
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर)	236
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त 4 के 22.5 प्रतिशत के हिसाब से)	93*
6. छुट्टी रिजर्व (उपर्युक्त 4 के 5.62 प्रतिशत के हिसाब से)	13

7. कनिष्ठ पद (उपर्युक्त 4 के 23.17 प्रतिशत के हिसाब से)	55
8. प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त 4 के 11.91 प्रतिशत के हिसाब से)	28
	-----
सीधी भर्ती वाले पद	425
पदोन्नति वाले पद	117
	-----
कुल प्राधिकृत संख्या	542
	-----

\*अतिरिक्त निम्नलिखित 40 पद शामिल हैं।

विशेष ध्यान दीजिए—इस अधिसूचना के जारी होने से पहले  
उत्तर प्रदेश संघर्ष की कुल प्राधिकृत संख्या 503  
थी।

[सं० 1031/21/79-अ० भा० से (1)-क]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 24th July, 1980

### NOTIFICATIONS

G.S.R. 446 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Twelfth Amendment Regulations, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Uttar Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

### "Uttar Pradesh"

1. Senior Posts under the State Government	252
Chief Secretary to Government	1
Chairman, Board of Revenue and Adviser, Land Reforms	1
Member, Board of Revenue	2
Agricultural Production Commissioner	1
Commissioner and Secretary (Planning)	1
Administrative Member and Chairman, Public Services, Tribunal	4
Member (Judicial) Board of Revenue	7
President and Member, Administrative Tribunal and Chairman Vigilance Commission	1
Commissioner of Division	11
Commissioner for Consolidation	1
Secretary Government	17
Secretary to Chief Minister	1
Sales Tax Commissioner	1
Director, Administrative Training Institute	1
Director of Industries	1
Commissioner and Project Administrator, Area Development	3

Special Secretary to Government	21	3. Deputation Reserve @22.5% of item 4 above	93*
Secretary to Governor	1	6. Leave Reserv @5.62% of item 4 above	13
Secretary, Board of Revenue	1	7. Junior posts @23.17% of item 4 above	55
Joint/Deputy Secretary to Government	58	8. Training Reserve @11.91% of item 4 above	28
Additional/Joint Director, National Savings-cum-			
Joint/Deputy Secretary to Government	1	Direct Recruitment posts	425
Excise Commissioner and Commissioner for Pro-		Promotion Posts	117
hibition	1		
Director, Planning Research and Action Division		Total Authorised Strength	542
and Director/Evaluation and Training Division-			
cum-Special/Joint/Deputy Secretary to Govern-	1		
ment	5	*Includes 40 posts as ad hoc increase.	
Additional/Joint Director of Industries		Note:— Prior to issue of this notification the total authorised	
Controller of Weights and Measures and Joint/		strength of Uttar Pradesh was 503.	
Deputy Secretary to Government	1		
Labour Commissioner	1		
Additional/Joint Labour Commissioner	1		
Registrar, Cooperative Societies	1		
Additional Registrar, Cooperative Societies	1		
Cane Commissioner	1		
Additional/Joint Sales Tax Commissioner	1		
Additional Commissioner	4		
Director of Panchayats	1		
Chairman and Member Administrative Tribunal			
(II)	1		
Director of Information and Special/Joint/Deputy			
Secretary to Government	1		
Director of Training and Employment	1		
Director of Harijan and Social Welfare	1		
Secretary, Public Service Commission	1		
Deputy Commissioner/Magistrate and Collector	56		
Inspector General of Registration-cum-Chief			
Inspector of Stamps-cum-Additional Secretary,	1		
Board of Revenue			
Additional/Deputy Commissioner, Food and Civil			
Supplies-cum-Joint/Deputy Secretary to Govern-	1		
ment			
Deputy Land Reforms Commissioner	1		
Director of Local Bodies	1		
Additional/Joint Director of Consolidation	1		
Director, Bureau of Public Enterprises-cum-Joint/			
Deputy Secretary to Government	1		
Director of Tourism	1		
Transport Commissioner	1		
Director, Urban Land Ceiling	1		
Regional Food Controller	5		
Joint/Deputy Development Commissioner/Addi-			
tional/Joint/Deputy Project Administrator Area			
Development/Project Director-cum-Chief Devo-	20		
lopment Officer			
Milk Commissioner	1		
	252		
2. Central Deputation Reserve @40% of 1 above	101		
3. Posts to be filled by promotion and selection under			
Rule 8 of the Indian Administrative Service			
(Recruitment) Rules, 1954 @33,1/3 % of 1 and	117		
2 above.			
4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2			
minus 3 above)			

[No. 1031/21/79-AIS(II)A]

सा० का० नि० 44(अ):—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में

(क) “अनुसूची-III-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन पाने वाले पद धारणी में” “उत्तर प्रदेश” के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टियों तथा दूसरे और तीसरे कालमों में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश	
पदों के नाम	वेतन
	र०
सरकार के मुख्य सचिव	3500
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और भूमिसुधार	3500
सदस्य, राजस्व बोर्ड	3000
कृषि उत्पादन आयुक्त	3000
आयुक्त और सचिव (योजना)	3000
सदस्य प्रशासनिक और अध्यक्ष लोक सेवा अधिकरण	3000
सदस्य (न्यायिक) राजस्व बोर्ड—	2500-125/2-2750
सभापति और सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण और	
अध्यक्ष सतर्कता आयोग	2500-125/2-2750
प्रमुखल आयुक्त	"
आयुक्त चकबन्दी	"
सरकार के सचिव	"
मुख्य मंत्री के सचिव	2500-125/2-2750
आयुक्त बिक्री कर	"
निदेशक उद्योग	"
निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	
आयुक्त और परियोजना प्रशासक क्षेत्र विकास	

(ख) “अनुसूची-III-ख—राज्य सरकारों के [ग्रामीण भारतीय] प्रशासन सेवा के धरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पद (जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद शामिल हैं) सारणी में, “उत्तर प्रदेश” के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि तथा दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

सरकार के विशेष सचिव

अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ

राज्यपाल के सचिव

सचिव, राजस्व बोर्ड

सरकार के संयुक्त/उप सचिव

अपर/संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बंधन तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव  
आयुक्त उत्पादक और आयुक्त तथाबन्दी

निदेशक योजना अनुसंधान और कार्यकारी खण्ड और निदेशक, मूल्यांकन  
और प्रशिक्षण खण्ड तथा सरकार के विशेष/संयुक्त उप सचिव ।

अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग

निदेशक अनुसूचित जाति और समाज कल्याण

नियंत्रक बाट, माप और सरकार के संयुक्त/उप सचिव

अमायुक्त

अपर/संयुक्त अम आयुक्त

रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ

गन्ना आयुक्त

अपर/संयुक्त विजय कर आयुक्त

अपर आयुक्त

निदेशक पंचायत

अध्यक्ष और सचिव प्रशासनिक अधिकरण (II)

निदेशक सूचना और सरकार के विशेष/संयुक्त/उप सचिव

निदेशक प्रशिक्षण और रोजगार

निदेशक हरिजन और समाज कल्याण

निदेशक पर्यटन

सचिव, लोक सेवा आयोग

उप आयुक्त/मजिस्ट्रेट और कलक्टर

रूख आयुक्त

महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण तथा मुख्य निरीक्षक स्टाम्प तथा अपर सचिव

राजस्व बोर्ड

उप भूमि सुधार आयुक्त

अपर/उप आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति तथा सरकार के

संयुक्त/उप सचिव

निदेशक, शहरी भूमि हदबन्दी

निदेशक सार्वजनिक संस्थाएँ

अपर/संयुक्त निदेशक चकबन्दी

परिवहन आयुक्त

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक

संयुक्त/उप विकास आयुक्त/प्रशासक क्षेत्र विकास/परियोजना निदेशक सह  
मुख्य विकास अधिकारी

निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जन जाति

निदेशक सार्वजनिक उद्यम व्यूरो तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव ।

[सं० 11031/21/79-अ० भा० से० (2)-ख]

वी० भार० श्रीनिवासन्, अवर सचिव

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1951, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Ninth Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954—

(a) In schedule III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments in the Table, for the entry 'Uttar Pradesh' occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

Name of the	Designation of posts	Pay and Scale of pay
'Uttar Pradesh'	Chief Secretary to Government	R s. 3500
	Chairman, Board of Revenue and Adviser, Land Reforms	Rs. 3500/-
	Member, Board of Revenue	Rs. 3000
	Agricultural Production Commissioner	Rs. 3000
	Commissioner and Secretary (Planning)	Rs. 3000
	Administrative Member and Chairman, Public Services Tribunal	Rs. 3000
	Member (Judicial) Board of Revenue	Rs. 2500-125/2-2750.
	President and Member, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	-do-
	Commissioner of Division	-do-
	Commissioner for consolidation	-do-
	Secretary to Government	-do-
	Secretary to Chief Minister	-do-
	Sales Tax Commissioner	-do-
	Director, Administrative Training Institute	-do-
	Director of Industries	-do-
	Commissioner and Project Administrator Area Development	Rs. 2500-125/2-2750.

(b) In Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale) in the Table for the entry "Uttar Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

Special Secretary to Government.

Secretary to Governor

Secretary, Board of Revenue

Joint/Deputy Secretary to Government.

Addl./Joint Director, National Savings-cum-Joint/Deputy Secretary to Government.

Excise Commissioner and Commissioner for Prohibition.

Director, Planning Research and Action Division and Director Evaluation and Training Division-cum-Special/Joint/Deputy Secretary to Government.

Additional/Joint Director of Industries.

Controller of Weights and Measures and Joint/Deputy Secretary to Government.

Labour Commissioner.

Additional/Joint Labour Commissioner.

Registrar, Cooperative Societies.

Additional Registrar, Cooperative Societies.

Cane Commissioner.

Additional/Joint Sales Tax Commissioner.

Additional Commissioner.

Director of Panchayats.

Chairman and Member Administrative Tribunal (If).

Director of Information and Special/Joint/Deputy Secretary to Government.

Director of Training and Employment.

Director of Harijan and Social Welfare.

Secretary, Public Service Commission.

Deputy Commissioner/Magistrate and Collector.

Inspector General of Registration-cum-Chief Inspector of Stamps-cum-Additional Secretary, Board of Revenue.

Additional/Deputy Commissioner, Food and Civil Supplies cum-Joint/Deputy Secretary to Government.

Deputy Land Reforms Commissioner.

Director of Local Bodies.

Additional/Joint Director of Consolidation

Director, Bureau of Public Enterprises-cum-Joint/Deputy Secretary to Government.

Director, Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Director of Tourism.

Transport Commissioner.

Director, Urban Land Ceiling.

Regional Food Controller.

Joint/Deputy Development Commissioner/Additional/Joint/Deputy Project Administrator Area Development/Project Director-cum-Chief Development Officer.

Milk Commissioner.

[No. 11031/21/79-AIS(II) B]

V.R. SRINIVASAN, Under Secy.

